

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्रक्रिया		(Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल)	Koshika foundation Building block of life.	
APPLICATION No.: आवेदन संख्या:	Blo 425/0276	APPLICATION DATE: आवेदन तिथि:	15/9/25	
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम:	Mahadevamma	AGE-YEARS: वय-वर्ष:	55	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/स्त्री का नाम:	Siddheshetty	SEX: लिंग:	F	
PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वासान स्थान संख्या, पता Kandigala, Channagiri, Karnataka		 		
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थान संख्या, पता —		Prop - Pglo P 0276 - Mahadevamma		
OCCUPATION: संख्या:	Homemaker	MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)		
TOTAL ANNUAL INCOME: कृत वार्षिक वयः	—	(Attach Proof of Income) (वय का साक्ष लाभन्त)		
PAN No. संख्या:				
RE YOU AN INCOME TAX ASSESSSEE (Tick whichever is applicable): मा आप जाप कर रहा है (जो मान्य हो उस पर यहाँ का विशेष संश्ये)				
Yes / No हाँ / नहीं				
FAMILY DETAILS: परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) वय (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध
1 <sup>y</sup>	Siddheshetty	76	M	Husband
2 <sup>y</sup>	Pratham	53	M	Son
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable): महायाता के लिए विवरी उल्लेख				
BPL Card (Attach Card Copy) <input checked="" type="checkbox"/> गरीबी रेखा के बीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र को जागा रखि संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) आप आप की इमाल पत्र (प्रमाण पत्र की जागा रखि संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) <input checked="" type="checkbox"/> उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र की जागा रखि संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष <input checked="" type="checkbox"/>	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: महायाता हेतु लिए गये विवरी का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/हाईटर से आई की गई प्रतिवेदन मूली संलग्न			
1 <sup>y</sup>	Diagnosis      TSE - cataract IOL → PCOL			
2 <sup>y</sup>	Surgery      REcat + PCOL			
ASSISTANCE BEING AVALIED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया है?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVALIED ली गई सहायता राशि		
1 <sup>y</sup>	DBOS	000/-		

**DECLARATION by APPLICANT:** आवेदक कृपा पाठपना करा-

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
  - I solemnly confirm that assistance, if received from Kashika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
  - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं योग्यता काला हूँ कि इस प्राप्ति में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार साक्षर एवं याही है। परं कोई विवरण एवं कामन असाध पाया जाता है तो मेरी सहायता प्रियकार की जा सकती है।

2) मेरी द्वारा जी सहायता की "केंद्रिका कालान्वेशन", से जुड़ी जा चुकी है, उसका उपयोग उमीद उत्तेजक की चुनौती के लिये किया जायेगा, जो इस प्रक्रम में भाग याही है।

3) मैं पृष्ठ काला हूँ कि विस सहायता हेंगे यह प्राप्तिका की गई है, उस राशि का कर्तव्यकार विवरण अन्तर्गत विवरणों अन्तर्गत बनाये जायेंगे जो न तो नियम है और न तो विवरण में नहीं।

AGREEMENT by APPLICANT (申請人 同意)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and its Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about its activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1) इस प्रत पर अपने हस्ताक्षर या संगोष्ठी की छाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी सहमति की पुष्टि करता हूं एवं "कोशिका फाउंडेशन" नाम उपरके न्यासीये<sup>®</sup> को अधिकृत करता हूं कि मेरा नाम, पता, छोटे और जो विवरण इस प्रत पर में खोलित है, उसे "कोशिका" एवं न्यासी, दान, याकृतय एवं दूसरे उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों लिए उपलब्धियों के लिए किसी भी प्रकार यात्रायम से प्रभावित करने के लिए अधिकृत है। मेरे प्रत का विवरण मेरे हस्ताक्षर के पहले या बाद में करने के लिए "कोशिका फाउंडेशन" व न्यासी अधिकृत है।

2) मैं (आवेदक) इस बात मे सहमत हूं कि मेरा नाम, पता, छोटे और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्यों से जुड़ी हैं यहाँ भलतः सहायता का इकाया नहीं बनता। इस सम्बन्ध में "सहमति" एवं "अधिकृति" का विलो अधिकृति और सहमति नहीं।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

新編重刊本  
卷之三



AGREEMENT by HOSPITAL (સ્પાન્થ કરી શકત)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:

- (Hospital) hereby agrees to accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इनकी अधिकतम वित्तीयी की ओर से मापदंडोंपरे को "कानूनिक फार्मलेशन" से विभिन्न सहायता हेतु विधिविहीन ली जाती है, जिसे हम (हस्पताल) विषय प्रकार से मानव व सौकार्य करने के

- 1) यह कि न तो बालपन और न ही परिवर्ष में वित्तीय स्थापत्य किसी गैर साक्षात् संस्थान या किसी अन्य स्रोत से उत्तम गैरीज़ापत्रों में सेवे या तो रहे हैं, जैसे कि हमने "कोलिका फाउन्डेशन" से वित्तीय स्थापत्य किसी भी उत्तम के पश्चात में "कोलिका फाउन्डेशन" द्वारा बदर होते कि है। परं "कोलिका फाउन्डेशन" द्वारा वापस वित्तीय स्थापत्य कल हेतु सन्तुष्ट नहीं किया जाता है सो अस्पृशन किसी अन्य गैर साक्षात् संस्था या किसी अन्य स्थापत्य से स्थापत्य होने का अधिकार मुश्वित रखता है। इस पुस्ति में एवं यह बदर उत्तम गैरीज़ापत्रों से उत्तम गैरीज़ापत्रों में सेवे या तो रहे हैं, जैसे कि गैर साक्षात् संस्था या किसी अन्य स्थापत्य से नहीं संभव होती।
  - 2) "कोलिका फाउन्डेशन" जो ली गई स्थापत्य कोलेट वित्तीय दक्षता की है। ऐसी या हमस्तान द्वारा दी गई स्थापत्य या किसे गगे उपचार/इकाय के चुनाव एवं एवं हमस्तान के बीच का विषय है अब। "कोलिका फाउन्डेशन" द्वारा किसी उत्तम का कोई दावा नहीं है। इसलिये हमस्तान में ऐसी की गयी है जैसे कि इस्में ऐसी एवं हमस्तान की होती है और "कोलिका" की उत्तम गैरीज़ापत्र या वित्तीय स्थापत्य में होती होती।

RECOMMENDED  
Dr M BANTHA MBBS

**Dr. M. PAVITHRA**  
MS Consultant Ophthalmologist  
Bangalore Diabetes & Eye Hospital  
(A unit of Shraddha Eye Care Trust)  
(Name of Dr. & Regn. No. with Stamp)  
**Vasanthnagar, Bangalore 52**

KMC No-91567  
ECONOMIC & SOCIAL FOUNDATION

Mr. LAKSHMIPATHI N

#### **Senior Manager**

GOVERNMENT OF  
KARNATAKA  
DISTRICT BANGALORE

© 1998, Prentice-Hall International (UK) Ltd. All rights reserved.

(Name, Designation & stamp or Authorised Sign.

Digitized by srujanika@gmail.com

[View all Bangalore](#)

한국언어 대중

**SIGNATURE**

**SIGNATURE of TRUSTEE 1**

नवाची अस्ताना ।

Sergey

**SIGNATURE of TRUSTEE 2**

न्यासी हस्ताक्षर २

SiC B